



AKSH OPTIFIBRE LIMITED

A-32, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044, INDIA Tel.: +91-11-49991700, 49991777

Fax: +91-11-49991800

Email: aksh@akshoptifibre.com Website: www.akshoptifibre.com CIN NO.: L24305RJ1986PLC016132

November 08, 2025

To,

National Stock Exchange of India Ltd	BSE Ltd
Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No. C/1,	Phirozee Jeejeebhoy Towers,
G Block, Bandra Kurla Complex,	Dalal Street, Mumbai- 400 001
Bandra (E), Mumbai- 400 051.	
NSE SYMBOL: AKSHOPTFBR	BSE SCRIP CODE: 532351

Dear Sir/Ma'am,

<u>Sub: Copy of Newspaper Publication of Unudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter and half year ended September 30, 2025.</u>

With reference to the captioned subject and in accordance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed copies of Newspaper Publication containing a Quick Response Code and the details of webpage where the complete Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter and half year ended September 30, 2025 of the Company, published on November 08, 2025, in "The Financial Express" and "Lokmat".

You are requested to take the same on records.

Thanking You,

For & on behalf of Aksh Optifibre Limited

Mayank Chadha Company Secretary & Compliance Officer M. No.: F13404


We smarten up your life..®

Regd. Office: F-1080, RIICO Industrial Area Phase-III, Bhiwadi – 301019 (Rajasthan) INDIA Phones: +91-1493-220763, 221333 | Fax: +91-1493-221329

FINANCIAL EXPRESS

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

CIN: L24305RJ1986PLC016132





Ph: +91-11-49991700, 49991777, Website: www.akshoptifibre.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

Pursuant to Regulation 33 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of Aksh Optifibre limited ("the Company") at its meeting held on Friday, November 07, 2025, approved the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter & half year ended September 30, 2025.

The full Financial Results along with Limited Review Report, are available on the website of the Company at https://akshoptifibre.com/financial-results.php and the website of stock exchanges i.e. the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and can be accessed by scanning the below QR Code:

Date: November 07, 2025 Place: New Delhi KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

For Aksh Optifibre Limited Sd/-

Dr. Kailash S. Choudhari Chairman

DIN: 00023824

Registered Office: Krystal House, 15A/17, Shivaji Fort CHS, Duncan Causeway Road, Mumbai -400 022 CIN: L74920MH2000PLC129827

Tel. No.: - 9122 4353 1234, +9122 47471234, Website: www.krystal-group.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025

(All Amounts are ₹ in Millions unless otherwise stated)

				STAN	DALONE					CON	NSOLIDA	TED	
Sr.	Particulars				HALF YEA	R ENDED	YEAR ENDED	QUARTER ENDED			HALF YEA	YEAR ENDED	
No.	Particulars	2025	30th June 2025	2024	2025	2024	31 st March 2025	2025	30th June 2025	2024	2025	30th Sept 2024	31" March 2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	2,441.01	2,847.18	2,461.83	5,288.19	4,894,19	11,199.35	2,834.00	3,230.81	2,661.57	6,064.81	5,233.09	12,127.84
2	Net Profit (+) / Loss (-) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	143.74	174.04	155.55	317.79	318.13	722.39	157,96	191.79	163,05	349,75	327.82	755.32
3	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	143.74	174.04	155.55	317.79	318.13	722.39	157,96	191.79	163.05	349.75	327.82	755.32
4	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	122.81	150.08	144.11	272.89	297.07	602.16	131.66	164,36	151.34	296.03	304.33	625.15
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit (+) / Loss (-) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	125.74	136.48	142.85	262.23	297.67	603.57	134.73	150.89	150.32	285.63	305.35	626.93
6	Paid-up equity share capital (Face Value per share Rs.10/-)	139.72	139.72	139.72	139.72	139.72	139.72	139.72	139.72	139.72	139.72	139.72	139.72
7	Reserve (excluding Revaluation) Reserves as shown in Audited Balance Sheet of previous accounting year	Ţ.			4,412,11	3,861.04	4,170.84	85		0.8	4,497.04	3,906.89	4,232.37
8	Earnings Per Share (EPS)												
	Basic (not annualised for Quarters) (Absolute Value)	8.79	10.74	10.31	19.53	21.26	43.10	9.42	11.76	10.83	21.19	21.69	44.61
	Diluted (not annualised for Quarters) (Absolute Value)	8.79	10.74	10.31	19.53	21.26	43.10	9.42	11.76	10.83	21.19	21.69	44.61

Place : Mumbai

Date: 7th November, 2025

- 1 The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated and standalone financial results for 2nd quarter of F.Y.2025-26 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- 2 The above results have been reviewed by the Audit Committee on 7th November, 2025 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 7th November, 2025. The Statutory Audiotrs have expressed an unmodified opinion on these results.
- 3 Previous period's/year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to confirm to current period's classification.
- 4. The full format of the consolidated and standalone financial results for 2nd quarter of F.Y.2025-26 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.krystal-group.com and can also be accessed by scanning the Quick Response code available below.



For & on behalf of the Board of Directors (Sanjay Suryakant Dighe)

CEO & Whole-time Director DIN: 02042603



PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED

Regd Off: Survey No. 132/1/1/3, Athal Road, Village Athal, Naroli, Silvassa, Dadra Nagar Haveli - 396235. Corp Off: 8th Floor, The Ruby, 29, Senapati Bapat Marg, (Tulsi Pipe Road), Dadar West, Mumbai 400028 Tel No.: 022-6602 2222 | Fax No.: 022 6602 2220 | Email Id.: investor@princepipes.com Website: www.princepipes.com | CIN.: L26932DN1987PLC005837

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2025

	Q:						Rs in millio
Sr. No.	Particulars	Three months ended 30.09.2025 Unaudited	Three months ended 30.06.2025 Unaudited	Three months ended 30.09.2024 Unaudited	Six Month Ended 30.09.2025 Unaudited	Six Month Ended 30.09.2024 Unaudited	Year ended 31.03.2025 Audited
1.	Revenue from Operations	5,945.74	5,804.16	6,220.66	11,749.90	12,265.38	25,239.16
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	197.66	63.59	204.31	261.25	540.97	588.47
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	197.66	63.59	204.31	261.25	540.97	588.47
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	146.33	48.20	147.08	194.53	393.82	431.35
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	147.37	48.20	145.13	195.57	391.86	430.92
6.	Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	1,105.61	1,105.61	1,105.61	1,105.61	1,105.61	1,105.61
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of the previous year)						14,658.79
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic (in Rs.) 2. Diluted(in Rs.)	1.32	0.44	1.33	1.76 1.76	3.56 3.56	3.90 3.90

- 1. The above is an extract of the detailed format of the standalone results for the guarter and half year ended September 30, 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Unaudited Financial Results for the guarter and half year ended September 30, 2025 is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.princepipes.com.
- 2. The above results were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 07.11.2025 and have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
- 3. The Company is primarily engaged in manufacturing and selling of Pipes, Fittings and allied products in India. It comprises of Pipes and Fittings, Bathware sanitary and Faucet and allied products.
- 4. Employee cost for the guarter ended 30.06.2025 is not of writeback of INR 44.60 million towards excess staff incentive provision for earlier period



For and on behalf of Board Prince Pipes and Fittings Limited

Jayant Shamji Chheda Chairman & Managing Director (DIN: 00013206)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian Express (P) Limited cannot

be held responsible for such contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies, associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies

or entering into any

agreements with advertisers

or otherwise acting on an

advertisement in any

manner whatsoever.

INTERTEC TECHNOLOGIES LIMITED CIN NO. L85110KA1989PLC010456

Registered Office: 28, Shankar Mutt Road, Bangalore-560004 Phone:080-26679094/26611317;email: compliance@intertec1.com, URL:www.intertec1.com Extract of the Standalone Un-Audited Financial Results for Quarter & HY ended 30/09/2025(Rs. In Lakhs except EPS data)

No.	PARTICULARS		STAND	ALONE	
		Quarter Ended	Quarter Ended	YTD	Year Ended
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2025	31.03.2025
1	Total Income:(from Operations or others)	141.38	0	141.380	3.23
2	Net profit for the period after tax	-241.19	-1445.54	-1686.730	-389.13
3	Total Comprehensive Income (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax)	-241.19	-1445.54	-1686.730	-389.13
4	Paid-up Equity Share Capital(Face value Rs.10/-)	756.070	756.070	756.070	756.070
5	Earming per share of Rs.10/-each: Basic & Diluted(Rs)	(3.190)	(19.119)	-22.310	(5.150)
Nice	11				

The above is an extract of the detailed format of Un-Audited (standalone) financial results for the Quarter ended 30th September 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI LODR(2015) Full format of the Financial Results avaliable at the Company website: www.intertec1.com & MSEI website: www.msei.in

The results have been reviewed by the Audit Committee & approved in Board meeting held on 07.11.2025 By Order of the Board

Place: Banglore T S Ravi Chandar Date:07.11.2025 (Managing Director; DIN: 01684760)



GO FASHION (INDIA) LIMITED

CIN: L17291TN2010PLC077303 Registered office: No 43/20, Nungambakkam High Road, Chennai, Tamil Nadu 600034. Phone :044-4211 1777

Website: www.gocolors.com | E-Mail: companysecretary@gocolors.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR TO DATE ENDED SEPTEMBER 30, 2025

Based on the recommendations of the audit committee, the Board of Directors of **GO FASHION (INDIA) LIMITED** ("the company") at its meeting held on November 07,2025 has approved the Unaudited Financial Results for the quarter and year to date ended September 30th, 2025, which have been subject to a limited review by Price Waterhouse Chartered Accountants LLP, Statutory Auditors of the company, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015

The aforesaid results are also being disseminated on Company's website at https://www.gocolors.com/investor-relations. and can also be accessed by Scanning a Quick Response code given below:



Scan the QR Code to view the financial results on the website of the company

> For Go Fashion (India) Limited Gautam Saraogi **Executive Director & CEO** DIN: 03209296



Place : Chennai

Date: November 07, 2025

Regd.Office: 502, Skylon, G.I.D.C., Char Rasta, Vapi - 396 195, Dist. Valsad, Gujarat. Corp. Office: 1202, Tower B, Peninsula Business Park, G. K. Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400013

AEGIS LOGISTICS LIMITED

Tel.: +91 22 6666 3666 • Fax: +91 22 6666 3777 E-mail: aegis@aegisindia.com • Website: www.aegisindia.com • CIN: L63090GJ1956PLC001032 EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025 (₹ in Lakh except per share data)

Sr.	Particulars	7	Quarter ended		Half year	Year ended	
No.		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
7	Revenue from operations	2,29,401	1,71,941	1,75,042	4,01,342	3,35,176	6,76,379
2	Net Profit for the period/ year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	31,020	22,790	19,602	53,810	40,370	98,882
3	Net Profit for the period/ year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	31,020	22,790	19,602	53,810	40,370	98,882
4	Net Profit for the period/ year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	24,402	17,536	15,202	41,938	31,008	78,741
5	Total Comprehensive Income for the period/ year [Comprising Profit for the period/ year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	24,539	17,523	15,188	42,062	30,949	78,665
6	Equity Share Capital	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
7	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet		70				4,59,572
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	Basic (in ₹)	5.12	3.74	3.59	8.86	7.33	18.90
	Diluted (in ₹)	5.12	3.74	3.59	8.86	7.33	18.90

The key data relating to unaudited standalone financial results of Aegis Logistics Limited for the quarter and half year ended September 30, 2025 is as under: (₹ in Lakh)

Sr.	Particulars		Quarter ended	,	Half year	Year ended	
No.	10.000000000000	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited Unaudited		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Revenue from operations	1,02,787	83,661	65,828	1,86,448	1,39,041	2,97,678
2	Net Profit/ (Loss) for the period/ year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	22,411	9,355	9,598	31,766	31,632	67,776
3	Net Profit/ (Loss) for the period/ year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16,671	6,918	7,216	23,589	23,757	52,900
4	Total Comprehensive Income for the period/ year	16,652	6,899	7,200	23,551	23,726	52,825

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results are available on the Stock Exchange and company websites. (www.bseindia.com, www.nseindia.com or www.aegisindia.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.



For and on behalf of the Board **Aegis Logistics Limited**

Raj K Chandaria Chairman & Managing Director



Date :: November 7, 2025

Place: Mumbai

Gujarat Alkalies and Chemicals Limited

(An ISO Certified Company) (Promoted by Govt. of Gujarat) Regd. Office: P.O. Ranoli - 391 350, Dist. Vadodara (Gujarat) INDIA.

CIN: L24110GJ1973PLC002247 | E Mail: investor_relations@gacl.co.in; cosec@gacl.co.in | Website: www.gacl.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30[™] SEPTEMBER, 2025

				Standalone					Consolidate	d	
Sr. No.	Particulars	Quarter	Ended	Six Mont	hs Ended	Year Ended	Quarte	r Ended	Six Mont	hs Ended	Year Ended
di mu.	Falliculars	30/09/2025	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2024	31/03/2025	30/09/2025	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2024	31/03/2025
	10-	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Total Income from Operations	1,08,319	99,073	2,18,831	1,96,803	4,07,291	1,08,319	99,073	2,18,831	1,96,803	4,07,291
2	Net Profit for the period before Tax	1,348	1,296	2,303	(1,748)	972	1,354	(1,580)	152	(6,608)	(7,122)
3	Net Profit for the period after Tax	1,628	1,058	2,407	(1,411)	1,582	1,634	(1,818)	256	(6,271)	(6,512)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(17,280)	(5,382)	3,835	26,048	(22,327)	(17,274)	(8.258)	1,684	21,188	(30,425)
5	Equity Share Capital (Face value per share Rs.10/-)	7,344	7,344	7,344	7,344	7,344	7,344	7,344	7,344	7,344	7,344
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year		132	-	132	5,95,295		-	-		5,59,614
77	Earning Per Equity Share (of Rs. 10/- each) : (Before Other Comprehensive Income) (Not Annualised)							2-18-7-5			
	a) Basic (in Rs.)	2.22	1.44	3.28	(1.92)	2.15	2.23	(2.48)	0.35	(8.54)	(8.87)
	b) Diluted (in Rs.)	2.22	1.44	3.28	(1.92)	2.15	2.23	(2.48)	0.35	(8.54)	(8.87)

- The above financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read
- 2 The above results have been reviewed by the Audit Committee of Directors and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on 7° November.
- 3 The Financial Results for the quarter and six months ended 30° September, 2025 has been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
- 4 The Company's operations fall under single segment namely "Chemicals" as per Ind AS 108 "Segment Reporting".
- 5 The Board of Directors of the Company declared Dividend of Rs.15.80 per share on 7,34,36,928 Equity Shares of Rs.10/- each, amounting to Rs.11,603.03 lakhs for the financial year ended 31" March, 2025 and the same were approved by the Shareholders at the Annual General Meeting held on 26" September, 2025.
- Employee Benefits Expense for the quarter and six months ended 30" September, 2025 includes Rs. 3,784.43 lakhs and Rs. 5,284.43 lakhs respectively towards pay revision of
- 7 The Consolidated Financial Results includes result of 60% equity Joint Venture company GACL-NALCO Alkalies & Chemicals Pvt. Ltd. (Material Subsidiary as per SEBI [Listing Obligations Disclosure Requirements] Regulations, 2015).
- 8 During the guarter ended 30" September, 2025, the Company has made provisions of Rs 1,549.24 lakhs for the goods damaged due to the fire at Sanghvi Organics Pvt. Ltd.(contract manufacturer for Company); Ankleshwar, Gujarat.
- 9 The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing) Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the second quarter and six months ended on 30' September, 2025 are available on the Stock Exchanges website www.bseindia.com & www.nseindia.com and Company's website www.gacl.com



By Order of the Board AVANTIKA SINGH, IAS Managing Director DIN No.: 07549438

Date : 07.11.2025

epaper.financialexpress.com

Place : Gandhinagar

New Delhi

अप्रधान खनिज प्लाटों की नीलामी का कैलेण्डर तैयार कर लगभग प्रत्येक कार्य दिवस में होगी नीलामी, निवेश, रोजगार और रेवेन्यू में होगी बढ़ोतरी : टी. रविकान्त

अधीक्षण खिन अभियंता क्षेत्र में मिनरल गतिविधियों का एनालिसिस करें, औचक कार्रवाई पर जोर

प्रमुख सचिव माइंस श्री टी. रविकान्त ने राज्य में अभियान चलाकर अप्रधान खनिज ब्लॉक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में प्रधान और अप्रधान खनिज ब्लाकों व प्लाटों की मिशन मोड़ पर ई-नीलामी का कैलेण्डर बनाकर क्रियान्विति की जाएं। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में 251 अप्रधान खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की जा चुकी है। शेष अवधि में अप्रधान खनिज प्लॉटों के नीलामी का मासिक कैलेण्डर तैयार किया जा रहा है और लगभग प्रत्येक कार्य दिवस को नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने

स्पष्ट किया कि अवैध खनन और वैध नगर निगम मुख्यालय पर स्थापित की गई SIR हेल्पडेस्क

🔳 लोकमत, जयपुर ----नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय के सभासद भवन में शुक्रवार को SIR (Special Intensive Revision) (विशेष गहन पुनरीक्षण) के तहत महापौर, चेयरमैन, पार्षद की सक्रिय सहभागिता सनिश्चित करने के लिए तथा इस संबंध में जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें नगर निगम ग्रेटर व हैरिटेज के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में SIR के महत्वपूर्ण बिन्दुओं से मास्टर ट्रेनर ने अवगत कराया। साथ ही कार्यशाला में SIR की प्रमख प्रक्रियाएँ, चरण समझाए गए। इस अवसर पर महापौर डॉ. सौम्या गर्जर, उपायक्त सीमा चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। कार्यशाला पश्चात् ग्रेटर व हैरिटेज के जनप्रतिनिधियों की ग्रुप फोटो भी

नगर निगम ग्रेटर सतर्कता शाखा की बड़ी कार्रवाई

6 हजार रुपये का किया कैरिंग

चार्ज वसुल, ०५ केन्टर सामान जब्त

🔳 लोकमत, जयपुर

नगर निगम ग्रेटर आयक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देशानसार

उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार

को सतर्कता शाखा की टीम द्वारा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के

चार्ज वसल कर 05 केन्टर सामान जब्त किया गया। उपायुक्त

सतर्कता अजय कुमार ने बताया कि नगर निगम जयपुर ग्रेटर

अतिक्रमण हटवाया गया। उपरोक्त कार्रवाई के दौरान 05

केन्टर सामान जब्त कर गोदाम में भिजवाया गया व अस्थाई

अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 6 हजार रुपये का कैरिंग

चार्ज वसूल किया गया तथा दौरे के दौरान कार्यवाही सतर्कता

टीम द्वारा मौके पर समझाइश करते हुए मौखिक पाबंद

अन्यथा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में अवैध

अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भारी चालान या प्रभावी

मिनरल क्षेत्रों में प्लॉट तैयार कर नीलामी किया जाने की आवश्यकता है। प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त शुक्रवार को खनिज भवन में डीएमजी महावीर प्रसाद और वरिष्ट

अधिकारियों के साथ हाईब्रिड मोड पर रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑक्शन कैलेण्डर बनाते समय मेजर मिनरल प्लॉटों में मिनरल विविधिकरण पर जोर दिया जाए ताकि विविधिकत मिनरलों के ऑक्षन से बहुआयामी निवेश, रोजगार और रेवेन्य प्राप्त हो सके। गौरततलब है कि मुख्यमंत्री



की नीलामी पर जोर दिया जा रहा है जिससे माइंस सेक्टर में राजस्थान देश में व्वल प्रदेश बन सके।

रविकान्त ने कहा कि दो दिनों में फील्ड अधिकारियों को डेलिनियेशन के काम में जुटना होगा और गंभीरता से क्षेत्र खनन गतिविधियों पर कार्रवाई में तेजी लाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए उन्होंने अधीक्षण खनि अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में अवैध खनन क्षेत्रों को चिन्हित करने, क्षेत्र में खनिज खनन उत्पादन, निर्गमन और रेवेन्यू का विश्लेषण करेंगे तो लीकेज का स्वतः पता चलेगा और फिर औचक कार्रवाई करेंगे तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि प्लॉट और ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन प्रक्रिया में प्राथमिकता से लाया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में बजरी सहित जब्त खनिजों की नीलामी के लिए जल्द निविदा जारी करने के निर्देश दिए ताकि दिसंबर माह में जब्त खनिजों की

अधीक्षण खनि अभियंता मुख्यालय एसपी शर्मा ने अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई की विस्तार से जानकारी दी। अधीक्षण खनि अभियंता अप्रधान खनिज कमलेश्वर बारेगामा ने अप्रधान खनिजों की नीलामी और आगामी कार्ययोजना की

हाईब्रिड बैठक में संयुक्त सचिव माइंस अरविन्द सारस्वत, अतिरित्त निदेशक महेश माथुर, अतिरिक्त निदेशक भविज्ञान आलोक प्रकाश जैन. गोपाला राम, अधीक्षण खनि अभियंता एनएस शक्तावत, प्रताप मीणा, जय गुरुबख्शानी सुनील कुमार शर्मा, देवेन्द्र गौड, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी एरियल सर्वे सनील कुमार वर्मा व अन्य अधिकारियों ने हिस्स

. खरीदने हेत दिनांक 12.11.2025 र

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED)

FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

Pursuant to Regulation 33 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, the Board of Directors of Aksh Optifibre limited ("the Company") at its meeting held on Friday,

November 07, 2025, approved the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the

The full Financial Results along with Limited Review Report, are available on the website of the Company at

<u>https://akshoptifibre.com/financial-results.php</u> and the website of stock exchanges i.e. the BSE Limited and National

Stock Exchange of India Limited at <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.com</u>, respectively and can be accessed

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में फ्लैक्स मुद्रण एवं आपूर्ति मय स्थापना हेत् निविदा ज

ही गयी हैं, जिसका युवीएन GSU2526GSRC00045 है, जारी की गई है

नेविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in प

कृषि महाविद्यालय, लालसोट (दौसा)

खुली निविदा सूचना

तः 12.00 बजे तक निविदाएं आंमत्रित की जाती है एवं निविदाएं उसी दिन अधिष्ठाता, कृ

विद्यालय लालसोट कार्यालय में दोपहर बाद 12:30 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र

तर्तों की जानकारी प्रति निविदा इस महाविद्यालय से पॉच सौ रु. जमा कराके प्राप्त की

सकती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की वेबसाइट

quarter & half year ended September 30, 2025.

by scanning the below QR Code:

Date: November 07, 2025

Place: New Delhi

भा.क.नि.

इस महाविद्यालय में खेल सविधाओं के लिए उ

खा जा सकता हैं । इन निविदाओं का UBN No. SKN2526GSO

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नोखा

Notice Inviting Bid - 09/2025-26

Bids for Repair and Maintenance of Road and Building work invited from interested bidders upto 31.10.2025 [09:30 AM] to 10.11.2025 [09:00PM], other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://www.pwd.rajasthan.govin. & eproc.rajasthan.govin & http://sppp.rajasthan.govin of the state and departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 64.17 Lakh.

NIB CODE No: PWD2526A4124

PWD2526WSOB16034, PWD2526WSOB16037. PWD2526WSOB16038, PWD2526WSOB16039

Executive Engineer PWD Dn. Nokha

Office of the Executive Engineer, PHED, Distt Rural Div I Bikaner Email ID - eepheddnlbkn@gmail.com Contact No. 0151-2226473

Notice Inviting Bid: 72-74/2025-26 Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 14.11.2025 upto 14.00 PM. Other particulars of bid may be visited on the Procurement Portal http://eproc.rajasthan.gov.in and http://sppr.ja.jinc.in of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 41.00 Lacs.

UBN No.: PHE2425WSRC00948. PHE2425WSRC00949, PHE2425WSRC00950

जल सीमित है, इसकी बचत करें DIPR/C/16165/2025

Executive Engineer PHED, Distt (R) Div I Bikaner

(Ram Prakash Meena)

Office of the Executive Engineer,

Watershed Development & Soil Conservation Kolayat (Bikaner) Date: 31/10/2015

NOTICE INVITING BID NIB No. : WSC2526A0926

On the behalf of Governor of Rajasthan, bids for the execution of Construction of NRM Works under PMKSY 2.0 & MISA-2.2 (UTF) Projects of estimated value INR 155.20 Lakhs as mentioned below are invited from interested bidders up to 11.11.2025, 06.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in or https://sppp.rajasthan.gov.in) of the state, and www.watershed.rajasthan.gov.in departmental website.

Bid No.	Block	Estimated Cost, (Rs. in lakhs)	UBN No.
1.	Kolayat	63.00	WSC2526WSOB01582
2.	Kolayat	72.20	WSC2526WSOB01583
3.	Kolayat	20.00	WSC2526WSOB01584

DIPR/C/16310/2025

अधिशाषी अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति, कोलायत (बीकानेर)

राष्ट्रगीत-वंदे मातरम'' के 150 वर्ष पर जिले के चिकित्सा संस्थानों में उमडी देशभक्ति की लहर

🔳 लोकमत, भीलवाड़ा

जन-जन में राष्ट्रीय गौरव. सेवा भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना को सदढ करने और स्वदेशी उत्पादों के प्रति सम्मान को जागृत करने के उद्देश्य से आज शुक्रवार को राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पर्ण होने के उपलक्ष्य में जिलेभर के चिकित्सा संस्थानों व स्वास्थ्य कार्यालयों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामकेश गुर्जर ने बताया कि 'वंदे मातरम



कार्यक्रम' के अंतर्गत आज सीएमएचओ, परिवार कल्याण सहित टीबी कार्यालय अस्पताल व जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में राष्ट्रगीत के महत्व पर चर्चा की गई तथा देशभक्ति और स्वदेशी चेतना को मजबत करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्थानों में कर्मचारियों सामूहिक रूप से 'वंदे मातरम गीत व राष्ट्रगान का गायन कर देशप्रेम की भावना को नर्ड कर्जा दी। इस अवसर पर संस्थानों में स्वच्छता व स्वदेशी का संकल्प लेकर आत्मनिर्भर

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर बीएलओ सुखदेव भारकर निलंबित

🛮 कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु ०५ अधिकारी एईआरओ नियुक्त

🛮 प्रभावी नियंत्रण हेतु एक नियंत्रण केन्द्र मुरलीपुरा बीड में स्थापित

क्षेत्राधिकार में दुर्गापुरा पुलिया से महारानी फार्म, छोटी पुलिया सेक्टर 11 मालवीय नगर, बी-2 बाईपास द्वारकादास पार्क चौराहे से, पत्रकार कॉलोनी मानसरोवर से अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध 6 हजार रुपये का कैरिंग के क्षेत्राधिकार में दुर्गापुरा पुलिया से महारानी फार्म, छोटी पुलिया सेक्टर 11 मालवीय नगर , बी-2 बाईपास द्वारकादास पार्क चौराहे से, पत्रकार कॉलोनी मानसरोवर से अस्थाई करवाया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले अनशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

CIN: L24305RJ1986PLC016132 भारत के संकल्प को दोहराया R/O: F-1080, Phase III RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Rajasthan, India, 301019 Ph: +91-11-49991700, 49991777, Website: www.akshoptifibre.com

भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेशों की पालना में विशेष गहन पुन्रीक्षण-2026 (एसआईआर) का कार्य श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपर के निर्देशानसार दिनांक 04.11.2025 से प्रारम्भ किया गया है। कार्यक्रम के तहत मतदान केन्द्र में नियुक्त बीएलओ घर-घर जाकर परिगणना प्रपत्र की दो प्रतियां प्रत्येक मतदाता को व्यक्तिश: उपलब्ध करवा रहे हैं। समस्त सूचनाएं परिगणना प्रपत्र में भरवाई जाकर एक प्रति संग्रहण की जाएगी एवं एक प्रति मतदाता के पास प्रमाण स्वरूप उपलब्ध रहेगी।ईआरओ सुमन चौधरी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर (050) परिधीय क्षेत्र में 284 मतदान केन्द्र है जिसमें प्रत्येक भाग संख्या में नियुक्त बीएलओ एवं सुपरवाईजरों द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है, कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु 05 अधिकारियों को एईआरओ नियुक्त किया गया है। विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु एक नियंत्रण केन्द्र मुरलीपुरा बीड में भी स्थापित किया गया है। विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में चल रहे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण किए जाने पर मतदान केन्द्र संख्या 71 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चरण नदी-॥ के लिए नियुक्त बीएलओ सुखदेव भास्कर कार्यक्षेत्र में अनुपस्थित एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरती जाने की स्थिति पाए जाने पर सुखर्देव भास्कर को निलंबित किया गया। सरोज पारीक, सहायक निर्वाचक राजस्ट्रीकरण पदाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर (राजस्व अधिकारी) एवं विनय कुमार पारीक, सुपरवाईजर के द्वारा उनके दायित्वों के निर्वहन में अरूचि रखे जाने की स्थिति के लिए इनके विरूद्ध

For Aksh Optifibre Limited

Dr. Kailash S. Choudhari Chairman DIN: 00023824

Sd/

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD

(A Government of India Undertaking-Ministry of Textiles)

Branch Office: Bhilwara CIN:U51490MH1970GO1014733

क्रमांक/भाकनि/भील/विपणन/क्रय/एम.एस.पी/२०२५-२६/६३०

8 नवम्बर, 2025

कपास किसानों से अपील

वर्तमान कपास मौसम २०२५–२६ में भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा कपास की खरीद प्रारंभ कर दी गई है। कपास किसानों के हितों की रक्षा हेतू, निगम ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिलों में कुल 48 खरीद केंद्र खोले गए हैं।

वर्तमान कपास विपणन मौसम २०२५–२६ में, भारतीय कपास निगम (CCI) ने कपास किसानों के लिए 'कपास किसान मोबाइल ऐप' प्रारंभ किया है जिसके माध्यम किसान स्वयं पंजीकरण (Self Registration) कर सकते हैं और न्यूनतम समर्थन मूलय (MSP) योजना के अंतर्गत अपनी कपास CCI क्रय केन्द्रों पर बेच सकते हैं। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्व–पजीकरण की स्वीकृति दिए जाने के बाद पजीकरण पूर्ण माना जाएगा जिसके उपरांत किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध नजदीकी क्रय केन्द्र/अधिसूचित फैक्ट्री में अपनी कपास बेचने हेतु स्लॉट बुक कर सकेंगे। राज्य के अनुरोध एवं किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2025 तक कर दी गयी है।

अत : सभी कपास किसान से निवेदन है कि वे समय रहते कपास किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपना पंजीकरण पूर्ण करें ताकि MSP योजना का लाभ प्राप्त कर सकें ।

गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि कपास में नमी की मात्रा 8% से अधिक नहीं है, तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूर्ण भुगतान किया जाएगा। किन्तु यदि नमी की मात्रा 8% से अधिक होकर 12% तक है, तो 8% से अधिक नमी की मात्रा के अनुपात में कटौती करके MSP का भुगतान किया

अतः, निगम सभी कपास किसानों से अपील करता है कि वे कपास सुखाकर ही केंद्र पर लाएँ ताकि अतिरिक्त नमी के कारण कोई कटौती न हो। तथापि, किसी भी स्थिति में कपास में नमी की मात्रा 12% से अधिक नहीं

यदि किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो किसान निगम के शाखा कार्यालय, भीलवाड़ा के WhatsApp हेल्पलाइन नंबर 8764797929 पर संपर्क कर सकते हैं।

उप महा-प्रबन्धक

मालवीय नगर एवं झोटवाड़ा जोन में आयोजित हुआ शिविर

लोकमत, जयप्र

राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपा में नगर निगम ग्रेटर द्वारा फॉलोअप शिविर कार्यक्रम जारी किया गया है। 03 नवम्बर से 07 नवम्बर 2025 तक फॉलोअप शिविर जोन कार्यालयों पर आयोजित किये जा रहे है जिसके प्रभारी अधिकारी संबंधित जोन उपायक्त होगे। शुक्रवार को मालवीय नगर य मालवीय नगर जोन (गै परिसर) एवं झोटवाड़ा जोन में कार्यालय द्योटवादा जोन तारा नगर-दी रिवरणी फाटक पर आयोजित किया जायेगा। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में जोनवाईज 03 नवम्बर से 07 नवम्बर 2025 तक फॉलोअप शिविर संबंधित जोन कार्यालयों पर आयोजित किये जा रहे है। इन

सभी कैम्पों में आमजन से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान किया जा रहा है। पूर्व में भी 17 सितम्बर से 17 अक्टबर 2025 तक शहरी सेवा शिविर आयोजित किये गये थे। यदि कोई व्यक्ति समस्यानिस्तारण हेतु शिविरों में नहीं आ पाया हो तो इन शिविरों के माध्यम से अपनी समस्याओं का निस्तारण करवा सकता है।

शिविरों में मिल रही आमजन को **तत्काल राहत:**- झोटवाड़ा जोन के स्थानीय निवासी जुगल किशोर शर्मा ने झोटवाड़ा जोन में अपने मकान के लीज होल्ड पट्टे से फी होल्ड पट्टे के लिए आवेदन किया आवेदन करने के कुछ समय पश्चात ही संपूर्ण झोटवाड़ा फॉलोअप कैंप के अंतर्गत श्री जुगल किशोर शर्मा को उनके मकान का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा बनाकर प्रदान किया गया अपने इस कार्य के त्वरित तरह गति से पूर्ण हो जाने

पर जगल किशोर शर्मा के चेहरे पर मस्कान आ गई और उन्होंने अपने इस कार्य के लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा किए गए सहयोग की सराहना की और राज्य सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त किया। झोटवाड़ा जोन के स्थानीय निवासी राजाराम कमावत ने झोटवाडा जोन में चल रहे संपूर्ण झोटवाडा फॉलोअप कैंप में अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया आवेदन करने के एक दिन के भीतर ही संपूर्ण झोटवाडा फॉलोअप कैंप के अंतर्गत राजाराम को उनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाकर प्रदान किया गया अपने इस कार्य के बिना किसी परेशानी के और बहुत ही कम समय में पर्ण हो जाने पर फिर राजाराम को बहत प्रसन्नता हुई और इसके लिए उन्होंने नगर निगम प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त किया।

राजस्थान में 27 अक्टूबर से शुरू हुई कपास की MSP खरीद, किसानों में उत्साह

लोक मत, भीलवाडा

भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय एवं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) मख्यालय के निर्देशानसार कपास वर्ष 2025-26 की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद प्रक्रिया राजस्थान क्षेत्र में 27 अक्टूबर

2025 से प्रारंभ हो चुकी है। वर्तमान में राज्य की विभिन्न मंडियों में कपास की आवक निरंतर बढ़ रही है। बड़ी संख्या में न्यनतम समर्थन मल्य मिलने से



किसान अपनी उपज अधिसचित संतोष है और वे खुशी-खुशी अपनी कपास CCI को बेच रहे मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों को अपनी उपज का हैं। CCI शाखा भीलवाड़ा के अंतर्गत संचालित सभी खरीद

केंद्रों पर FAQ गुणवत्ता की कपास की खरीद सचारू पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से स्व-पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे किसान आसानी से अपनी उपज MSP पर बेच सकें। CCI का संकल्प है कि प्रत्येक पात्र किसान को न्युनतम समर्थन मुल्य का लाभ सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो।